



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1931 (श10)  
(सं0 पटना 105) पटना, बुधवार, 8 अप्रील 2009

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचनाएं  
2 फरवरी 2009

सं० सं0का0-1/सत्र-02-02/2009-1225—बिहार राज्यपाल का दिनांक 30 जनवरी, 2009 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर० एल० भाटिया, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 24 फरवरी, 2009 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

पटना,  
दिनांक 30 जनवरी, 2009.

आर० एल० भाटिया  
राज्यपाल, बिहार।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण चन्द्र सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

2 फरवरी 2009

सं० सं0का0-1/सत्र-02-02/2009-1226—अधिसूचना संख्या 1225, दिनांक 2 फरवरी 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण चन्द्र सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

*The 2nd February 2009*

No- P.A.-1/Session-02-02/2009-1225—The Following order of the Governor of Bihar dated the 30th January, 2009 is hereby published for general information :-

In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, R. L. Bhatia, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 A.M. on the 24th February, 2009 in the Assembly Chamber, Patna.

R. L. BHATIA,  
Governor of Bihar.

Patna,  
Dated 30th January, 2009.

By Order of the Governor of Bihar,  
ARUN CHANDRA SINGH,  
Addl. Secretary to Govt.

**भारत के संविधान के अधीन गठित चतुर्दश बिहार विधान सभा की  
एकादश-सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम  
फरवरी-मार्च 2009**

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2009

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद-176(1) के अधीन 11.30 बजे पूर्वाह्न बिहार विधान सभा वेश्म में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण।
3. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
4. आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण।
5. शोक प्रकाश (यदि हो)।

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2009

1. वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन।
2. वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन।
3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

बृहस्पतिवार, दिनांक 26 फरवरी, 2009

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2009

वित्तीय वर्ष 2008-2009 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

शनिवार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 }  
रविवार, दिनांक 01 मार्च, 2009 }

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2009

लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।

मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2009

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2009

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 105-571+10-डी0टी0पी0।